

# Hos

## Chapter 12

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

יְרַבָּה वह-बढ़ाता-है	וְשָׂרָה और-उजाड़	כָּזָב झूठ	הַיּוֹם दिन	כָּל- सारे-	קְדָוִים पूरवी-हवा	וְרָרָה और-पीछा-करता-है	רוּחַ हवा	רָעָה चरता-है	אֶפְרַיִם एप्रैम	1
	<a href="#">H7701</a>	<a href="#">H3577</a>	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H6921</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H7307</a>		<a href="#">H0669</a>	
		יִבְּלָה: ले-जाया-जाता-है	לְמִצְרַיִם मिस्र-को	וְשָׂמוּ और-तेल	וַיִּבְרְחוּ वे-बांधते-हैं	אֲשֶׁר अशशूर	עִם- के-साथ-	וּבְרִית और-वाचा		
		<a href="#">H2986</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H8081</a>	<a href="#">H3772</a>	<a href="#">H0804</a>		<a href="#">H1285</a>		

एप्रैम अपना समय नष्ट करता रहता है। इस्राएल सारे दिन, “हवा के पीछे भागता रहता है।” लोग अधिक से अधिक झूठ बोलते रहते हैं, वे अधिक से अधिक चोरियाँ करते रहते हैं। अशशूर के साथ उन्होंने सन्धि की हुई है और वे अपने जैतून के तेल को मिस्र ले जा रहे हैं।

כִּדְרָכָיו उसके-मार्गों-के-अनुसार	יַעֲקֹב याकूब	עַל- पर-	וּלְפָקֵד और-दंड-देने-के-लिए	יְהוּדָה यहूदा	עִם- के-साथ-	לְיְהוּדָה यहोवा-का	וְרִיב और-मुकद्दमा	2
<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H3290</a>			<a href="#">H3063</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H7379</a>	
			לֹא: उस-को	יָשִׁיב वह-लौटाएगा	כַּמְעַלְלָיו उसके-कार्यों-के-अनुसार			
				<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H4611</a>			

यहोवा कहता है, “इस्राएल के विरोध में मेरा एक अभियोग है। याकूब ने जो कर्म किये हैं, उसे उनके लिये दण्ड दिया जाना चाहिये। अपने किये कुकर्मों के लिये, उसे निश्चय ही दण्ड दिया जाना चाहिये।

אֱלֹהִים: एलोहीम	אֶת- के-साथ-	שָׂרָה उसने-संघर्ष-किया	וּבְאִנּוּ और-उसकी-शक्ति-में	אֶתְיוּ उसके-भाई	אֶת- को-	עָקְבָה उसने-एड़ी-पकड़ी	בְּבֶטֶן गर्भ-में	3
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8280</a>	<a href="#">H2020</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6117</a>	<a href="#">H0990</a>	

अभी याकूब अपनी माता के गर्भ में ही था कि उसने अपने भाई के साथ चालबाजियाँ शुरू कर दीं। याकूब एक शक्तिशाली युवक था और उस समय उसने परमेश्वर से युद्ध किया।

בֵּית-אֱלֹהִים बैत-एल	לֹא उस-से	וַיִּתְחַנֵּן- और-उसने-बिनती-की-	בָּרָה वह-रोया	וַיִּכְלָה और-जीता	מְלֶאכֶה दूत	אֶל- की-ओर-	וַיִּשָׂר और-उसने-संघर्ष-किया	4
<a href="#">H1008</a>			<a href="#">H1058</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H4397</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7786</a>	
				עִמָּנוּ: हमारे-साथ	וַיְדַבֵּר वह-बातें-करेगा	וְשָׁם और-वहां	וַיִּמְצְאֵנוּ उसे-मिलेगा	
					<a href="#">H1696</a>	<a href="#">H8033</a>	<a href="#">H4672</a>	

याकूब ने परमेश्वर के स्वर्गदूत से कुशती लड़ी और उससे जीत गया। उसने पुकारा और कृपा करने के लिये विनती की। यह बेटेल में घटा था। उसी स्थान पर उसने हमसे बातचीत की थी।

זְכָרוֹ: उसका-स्मरण	יְהוּדָה यहोवा	הַצְבָּאוֹת सेनाओं-के	אֱלֹהֵי एलोहीम	וַיְהוּדָה और-यहोवा	5
<a href="#">H2143</a>	<a href="#">H3068</a>		<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	

हाँ, यहोवा सेनाओं का परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा है।

אֱלֹהֵי अपने-एलोहीम	אֶל- की-ओर-	וַיְקַוָה और-आशा-रख	שָׁמַר पालन-कर	וַיִּמְשָׁכֵט और-न्याय	קָרָה करुणा	תְּשׁוּבָה लौट	בְּאֵלֵי הָיָה अपने-एलोहीम-की-ओर	וַאֲתָה और-तू	6
<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H4941</a>		<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0430</a>		
								תְּמִיד: निरन्तर	
								<a href="#">H8548</a>	

सो अपने परमेश्वर की ओर लौट आओ। उसके प्रति सच्चे बनो। उचित कर्म करो! अपने परमेश्वर पर सद भरोसा रखो!

7 כָּנַעַן בְּיָדוֹ מֵאֲזַי מְרַמָּה לַעֲשֹׂק אָהֵב :  
कनानी उसके-हाथ-में तराजू छल-के ठगने-के-लिए वह-प्रेम-करता-है  
H0157 H6231 H4820 H3976 H3027

“याकूब एक सचमुच का व्यापारी है। वह अपने मित्रों तक को छलता है! उसकी तराजू तक झूठी है।

8 וַיֹּאמֶר אֶפְרַיִם אֵךְ עֲשֵׂתִי מִצָּאתִי אֵין לִי כָל-יְיִי לֹא  
और-कहा एफ़्रैम-ने निश्चय मैं-धनी-हो-गया-हूँ मैं-धन-पाया-है धन अपने-लिए सब-मेरी-मेहनत नहीं  
H3808 H3018 H3605 H0202 H4672 H6238 H0389 H0669 H0559  
יִמְצְאוּ-לִי עוֹן אֲשֶׁר-הָטָא:  
वे-पाएंगे-मुझ-में अधर्म जो-पाप  
H2399 H5771 H4672

एफ़्रैम ने कहा, ‘मैं धनवान हूँ! मैंने सच्ची सम्पत्ति पा ली है। मेरे अपराधों का किसी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। मेरे पापों को कोई व्यक्ति जान ही नहीं पायेगा।’

9 וְאֲנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֵיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַד אֲשִׁיבָךָ בְּאֵהָלַיִם כִּימִי מוֹעֵד:  
और-मैं यहोवा तेरा-एलोहीम देश-से मिस्र फिर मैं-तुझे-बसाऊंगा मैं-तुझे-बसाऊंगा जैसे-दिनों मिलन-के-पर्व  
H4150 H3117 H0168 H3427 H5750 H4714 H0776 H0430 H3068 H0595

“किन्तु मैं तो तभी से तुम्हारा परमेश्वर यहोवा रहा हूँ जब तुम मिस्र की धरती पर हुआ करते थे। मैं तुझे तम्बुओं में वैसे ही रखा करूँगा जैसे तू मिलाप के तम्बू के अवसर पर रहा करता था।

10 וְדַבַּרְתִּי עִל-הַגְּבִיאִים וְאֲנֹכִי חֲזוֹן הַרְבִּיתִי וּבִידְ הַגְּבִיאִים אֶדְרָה:  
और-मैं-बात-की पर-नबियों और-मैं नबियों दर्शन और-मैं नबियों और-हाथ-से मैंने-बहुत-किए और-दृष्टांत-दिया  
H1819 H5030 H3027 H2377 H0595 H5030 H1696

मैंने नबियों से बात की। मैंने उन्हें अनेक दर्शन दिये। मैंने नबियों को तुम्हें अपने पाठ पढ़ाने के बहुत से तरीके दिये।

11 אִם-גִּלְעָד אֲנִי שְׂוֹא אֶךְ-אֲנִי מִזְבְּחוֹתֶם אִם-גִּלְעָד אֲנִי שְׂוֹא אֶךְ-אֲנִי מִזְבְּחוֹתֶם  
यदि-गिल्याद दुष्टता निश्चय-व्यर्थता वे-हो-गए गिलगाल-में बैलों उन्हीं-बलि-चढ़ाई भी उनकी-वेदियां  
H4196 H1571 H2076 H7794 H1537 H1961 H7723 H0389 H0205 H1568  
עַל-תְּלִמֵי שְׂדֵי:  
पर-क्यारियों खेत-की  
H8525  
כְּגַלְיָם  
ढेरों-के-समान  
H1530

किन्तु गिलाद में फिर भी पाप है। वहाँ व्यर्थ की अनेक वस्तुएँ हैं। गिलाद में लोग बैलों की बलियाँ अर्पित करते हैं। उनकी बहुत सी वेदियाँ इस प्रकार की हैं, जैसे जुते हुए खेत में मिट्टी की पंक्तियाँ हो।

12 וַיִּבְרַח יַעֲקֹב וַיֵּרָח אָרָם וַיַּעֲבֹד יִשְׂרָאֵל בְּאִשָּׁה וּבְאִשָּׁה  
और-भागयाकूब आराम-के मैदान और-सेवा-की इसाएल-ने एक-स्त्री-के-लिए एक-स्त्री-के-लिए  
H0802 H0802 H3478 H5647 H0758 H3290 H1272  
שָׂמַר:  
उसने-रखवाली-की  
H8104

“याकूब आराम की ओर भाग गया था। इस स्थान पर इसाएल (याकूब) ने पत्नी के लिये मजदूरी की थी। दूसरी पत्नी प्राप्त करने के लिये उसने मेढ़े रखी थी।

13 וּבְנֵי יַעֲקֹב הָעֹלָה יְהוָה אֶת-יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם וּבְנֵי יַעֲקֹב הָעֹלָה יְהוָה אֶת-יִשְׂרָאֵל  
और-एक-नबी-के-द्वारा उठाया यहोवा-ने को-इसाएल मिस्र-से  
H8104 H5030 H4714 H3478 H0853 H3068 H5927 H5030

किन्तु यहोवा एक नबी के द्वारा इसाएल को मिस्र से ले आया। यहोवा ने एक नबी के द्वारा इसाएल को सुरक्षित रखा।

לֹא	יָשִׁיב	וְהִרְפֹּתוּ	יָטוּשׁ	עָלָיו	וְדָמָיו	תִּמְרוּרִים	אֶפְרַיִם	הִכְעִיס
उस-को	लौटाएगा	और-उसकी-निंदा	छोड़ा-जाएगा	उस-पर	और-उसके-खून	कड़वाहट-से	एप्रैम-ने	क्रोधित-किया
	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2781</a>	<a href="#">H5203</a>		<a href="#">H1818</a>	<a href="#">H8563</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H3707</a>
								אֲדֹנָיו:
								उसका-आदोनाई
								<a href="#">H0136</a>

किन्तु एप्रैम ने यहोवा को बहुत अधिक कुपित कर दिया। एप्रैम ने बहुत से लोगों को मार डाला। सो उसके अपराधों के लिये उसको दण्ड दिया जायेगा। उसका स्वामी (यहोवा) उससे उसकी लज्जा सहन करवायेगा।”